

# व्यापारिक साझेदारों के लिए सूचना – प्रमाणपत्रों और सुरक्षा मुहरों में परिवर्तन

हम निर्यात किए जाने वाले सभी कृषि उत्पादों के लिए [अपनी प्रमाणन प्रणाली में सुधार](#) कर रहे हैं।

इसमें निम्न चीजों में परिवर्तन करना शामिल है:

- निर्यात प्रमाणपत्र
- स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर
- विभागीय सुरक्षा मुहर की आवश्यकता वाले माल के लिए भौतिक मुहर.

बाज़ार पहुँच के लिए तय और सहमत प्रमाणनों में बदलाव नहीं होगा.

## निर्यात प्रमाणपत्र

निर्यात प्रमाणीकरण में बदलाव वस्तु के आधार पर चरणों में किए जाएँगे. इसका समय हमारी नई निर्यात प्रलेखन प्रणाली, NEXDOC में वस्तु के उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा.

जाँच करें कि [NEXDOC में वस्तुएँ कब उपलब्ध होंगी](#).

परिवर्तनों में शामिल हैं:

- विभाग के पिछले नामों के बजाय — *ऑस्ट्रेलियाई सरकार* के नाम का उपयोग करना
- ऑस्ट्रेलियाई सरकार के चिह्न का उपयोग करना
- वास्तविक समय में प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए एक अनन्य क्लिक रीडर (क्यूआर) कोड जोड़ना
- आवश्यकता होने पर, प्रमाणपत्र के पहले पृष्ठ पर और अधिक जानकारी जोड़ने के लिए संलग्नक पृष्ठों का उपयोग करना
- कुछ प्रमाणपत्रों पर फ़ैक्स किए गए/इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करना
- क्यूआर कोड जारी किए जाने पर - **सादे कागज** पर प्रमाणपत्र जारी करना.

ये बदलाव केवल कागजी प्रमाणपत्रों के लिए हैं. इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणन (eCert) में कोई बदलाव नहीं होगा.

## जोड़ा गया क्लिक रीडर (क्यूआर) कोड

नए सादे कागजी प्रमाणपत्रों में एक अनन्य क्यूआर कोड शामिल होगा. यह एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा है.

प्रमाणपत्र का अवलोकन करने के लिए उपयोगकर्ता क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं. वे निम्नलिखित विवरणों की पुष्टि करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं:

- प्रमाणपत्र संख्या
- उत्पाद के प्रकार
- मौजूदा प्रमाणपत्र की स्थिति
- निर्यातकर्ता
- माल प्राप्तकर्ता
- माल भेजने की तिथि.

क्यूआर कोड निम्नलिखित सुविधाओं द्वारा पढ़ा जा सकता है:

- क्यूआर सक्षम डिवाइस

या

- विभाग के प्रमाणपत्र स्कैनर मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके – यह एंड्रॉइड गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध है.

अगर आप एक सामान्य क्यूआर कोड रीडर का उपयोग करते/करती हैं, तो आपको यह सत्यापित करना होगा कि URL कृषि और जल संसाधन विभाग से संबंधित है.

## स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर

ऑस्ट्रेलिया सभी मांस, दुग्ध-उत्पाद, अंडा और समुद्री भोजन स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों से मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर को हटा रहा है.

इसके स्थान पर प्रमाणपत्र सत्यापन के आधार पर वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर या किसी प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाएंगे.

मई 2019 के अंत से ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर नए हस्ताक्षर होंगे.

## कंटेनरों के लिए सुरक्षा मुहरें

1 अगस्त 2019 से निर्यात कंटेनरों पर आधिकारिक ऑस्ट्रेलियाई सरकार की सुरक्षा मुहर अलग तरह की दिखाई देंगी.

यह परिवर्तन केवल उन खेपों पर लागू होता है, जिनके लिए विभागीय सुरक्षा मुहर की आवश्यकता होती है.

## वर्तमान कंटेनर मुहरें

वर्तमान कंटेनर मुहरों में मुहर की क्रम संख्या से ठीक पहले उपसर्ग 'A' होता है. निम्नलिखित चित्रों में वर्तमान मुहरों को दिखाया गया है.



## नई कंटेनर मुहरें

नई कंटेनर मुहरों में अब उपसर्ग 'A' नहीं है. निम्नांकित चित्रों में नई मुहरों को दिखाया गया है.



1 अगस्त 2019 से पहले मुहर लगाकर भेजे गए खेपों में वर्तमान मुहरों का उपयोग होगा.

निर्यात नियंत्रण (निर्धारित सामान्य-माल) आदेश 2005 के अनुसार बोल्ट और छेड़खानी सूचक मुहरों में एक अनन्य संख्या होना आवश्यक है.

मुहरों की सुरक्षा विशेषताओं में अभी भी:

- मुहर बोल्ट या धातु के पट्टे से युक्त होगी
- छेड़खानी दर्शाने वाली होगी
- एक अनन्य संख्या होगी
- ISO17712 फ़ाइट कंटेनर्स - यांत्रिक मुहरों के अनुपालन में होगी.

## निर्यात दस्तावेज़ प्रणाली अपडेट

हम EXDOC को अगली निर्यात प्रलेखन प्रणाली (NEXDOC) नामक एक नई प्रणाली से बदल रहे हैं।

NEXDOC ऑस्ट्रेलिया की निर्यात प्रलेखन प्रणाली को व्यापारिक परिस्थितियों में बदलाव के लिए अधिक सुरक्षित और उत्तरदायी बना देगी। इसमें आयातकर्ता देश द्वारा निवेदन किए गए परिवर्तन शामिल होंगे।

NEXDOC हमारी वर्तमान प्रमाणन व्यवस्था या निर्यातों पर हमारे नियामक नियंत्रण को नहीं बदलती है।

[NEXDOC में संक्रमण किए जाने](#) के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें।

## संपर्क करें

हम व्यापारिक साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि नए निर्यात प्रमाणपत्र और सुरक्षा मुहरों में सुचारू रूप से संक्रमण सुनिश्चित किया जा सके और व्यापार में किसी भी व्यवधान को कम से कम किया जा सके।

अगर आपके पास कोई प्रश्न, टिप्पणियाँ या चिंताएँ हैं, तो [exports@agriculture.gov.au](mailto:exports@agriculture.gov.au) से संपर्क करें।